



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7—नवम्बर 13, 2009 (कार्तिक 16, 1931)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7—NOVEMBER 13, 2009 (KARTIKA 16, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2009

सेना शाखा

सं. 565, दिनांक 18 अगस्त 2009—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले. के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2008 से)

सं. 564, दिनांक 17 अगस्त 2009—राष्ट्रपति, श्री एस चन्द्रशेखरन आई.आर.ए.एस. (1975) को 17 अगस्त 2009 (पूर्वाह्न) से रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार (अर्जन), सदस्य (रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड) और अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव श्री जे.के. जैन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 जुलाई 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/8/2009—सीएस. II के अनुसरण में 07 अगस्त, 2009 के पूर्वाह्न से चयन सूची वर्ष 2009 के लिए नियमित आधार पर रक्षा मंत्रालय में वेतन बैंड-3 (15,600-39100 रुपये) + ग्रेड वेतन 7600 रुपये में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

के मुरली

अवर सचिव

निम्नलिखित 123 नियमित पाठ्यक्रम (123 डाईरेक्ट एन्टी, 113 एनडीए, 90 एसीसी) के कैडेटों को सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2008 से स्थाई रूप से सेना निर्देश ए/एस/74 (डाईरेक्ट एन्टी), सेना निर्देश 53/78 को वि से नि/एएस/74 को साथ पढ़ा जाये (एनडीए), सेना निर्देश 55/74 (एसीसी) के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आईसी नं., नाम और आर्म/सर्विस

(आईसी-70778डब्ल्यू) अभिषेक गर्गमुख, इन्फैन्ट्री

(आईसी-70779वाई) अतुल कुमार राय, एसी

(आईसी-70780एन) कुन्दन कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-70781डब्ल्यू) अजीत सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70782वाई) उदित पन्त, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70783एफ) भवेश रंजन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70784के) आदित्य शर्मा, आर्टी
 (आईसी-70785एम) जसकरन सिंह, आर्टी
 (आईसी-70786पी) अभिनव मारवाल, इंजीनियर्स
 (आईसी-70787एक्स) ललित मोहन पलाड़िया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70788ए) देवरे अनूप बिपिनचन्द्र, आर्टी
 (आईसी-70789एच) शेते उमेश बन्दोपन्त, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70790एक्स) एस पी दीपक, आर्टी
 (आईसी-70791ए) कुमार वैभव, एएडी
 (आईसी-70792एच) शान्तनू बाऊरी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70793एल) गौरव ग्रेवाल, ईएमई
 (आईसी-70794एन) अंकित खत्री, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70795डब्ल्यू) आनंद कुमार एन, आर्टी
 (आईसी-70796वाई) जीवन सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70797एफ) शैलेन्द्र सिंह चौधरी, आर्टी
 (आईसी-70798के) विशाल नन्दा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70799एम) विनय राय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70800डब्ल्यू) अभिनीत कुमार गौड़, ईएमई
 (आईसी-70801वाई) श्रीनिवासन एस, मैक
 (आईसी-70802एफ) लक्ष्य, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70803के) टरूण एबी मैथ्यू, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70804एम) भूपेन्द्र सिंह, शौर्य चक्र, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70805पी) अभिनव श्रीवास्तव, एएडी
 (आईसी-70806एक्स) सुमित श्योराण, एसी
 (आईसी-70807ए) पंकज दहिया, इंजीनियर्स
 (आईसी-70808एच) बांधे राजेश श्रीराम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70809एल) शौर्य राणा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70810ए) अलोकिक डोगरा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70811एच) अबुसईद जी पटेल, आर्टी
 (आईसी-70812एल) विकास कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70813एन) अमित दिलीप वारंग, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70814डब्ल्यू) दीपक भट्ट, इन्फैन्ट्री

(आईसी-70815वाई) प्रिन्स बी रमेश, इंजीनियर्स
 (आईसी-70816एफ) दुष्यंत सिंह लाम्बा, एसी
 (आईसी-70817के) आशुतोष कुमार पाण्डेय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70818एम) प्रमोद पी प्रभु, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70819पी) वाढेकर सुधाकर रामदास, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70820के) अशोक भारद्वाज, मैक
 (आईसी-70821एम) योगेन्द्र कुमार राई, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70822पी) अक्षय किशोर देखणे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70823एक्स) शरद चन्द्र सिंह, आर्टी
 (आईसी-70824ए) अजीत कुमार प्रधान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70825एच) हरमलकर निखिल प्रकाश, एएडी
 (आईसी-70826एल) अखिलेश चौहान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70827एन) हरप्रीत सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-70828डब्ल्यू) दलवी जितेन्द्र खंडु, एसी
 (आईसी-70829वाई) रवि कान्त कुशवाहा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70830एन) अम्बरीश कुमार उपाध्याय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70831डब्ल्यू) सचिन कुमार, एससी
 (आईसी-70832वाई) प्रत्यूष कुमार सिंह, ईएमई
 (आईसी-70833एफ) भानू तेजा ए, एएडी
 (आईसी-70834के) अविनाश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70835एम) मार्टिन अर्विन्द एस, आर्टी
 (आईसी-70836पी) सीए अमित प्रसाद, एसी
 (आईसी-70837एक्स) अमित सेमवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70838ए) दीपक मेहता, आर्टी
 (आईसी-70839एच) जितेन्द्र प्रजापति, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70840एक्स) संदीप धुल, मैक
 (आईसी-70841ए) भूपेश सिंह चुफाल, एएडी
 (आईसी-70842एच) कल्याणबाबु माहमोमचा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70843एल) विपिन चन्द्र डंडरियाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70844एन) अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70845डब्ल्यू) दलवी नकुल जयंत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70846वाई) अवनीश आनन्द झा, एएडी
 (आईसी-70847एफ) संदीप भारतीय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70848के) गौरवजीत चावला, ईएमई
 (आईसी-70849एम) आलोक कुमार मण्डल, आर्टी

(आईसी-70850एफ) अनूप वि, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70884पी) देबदुलाल माइती, आर्टी
(आईसी-70851के) अभिषेक कुलकर्णी, इंजीनियर्स	(आईसी-70885एक्स) दीपक रस्तोगी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70852एम) शैलेन्द्र सिंह पटेल, एएससी	(आईसी-70886ए) विकास शर्मा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70853पी) संदीप शर्मा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70887एच) यशवंत अरविन्द अभ्यंकर, आर्टी
(आईसी-70854एक्स) माकन इन्द्रप्रताप सिंह निर्मल सिंह, एसी	(आईसी-70888एल) नरहरी वी, आर्टी
(आईसी-70855ए) आशीष अवस्थी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70889एन) प्रभात कुमार, आर्टी
(आईसी-70856एच) राजीव कुमार, आर्टी	(आईसी-70890एच) अशोक कुमार सिंह, इंजीनियर्स
(आईसी-70857एल) जगप्रीत सिंह सोढ़ी, आर्टी	(आईसी-70891एल) दीपक कुमार मुलिया, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70858एन) रोहित श्योराण, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70892एन) नेटके दीपक केशव, आर्टी
(आईसी-70859डब्ल्यू) प्रशान्त प्रियदर्शी, आर्टी	(आईसी-70893डब्ल्यू) विनीत वी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70860एल) दीपक कुमार सामल, आर्टी	(आईसी-70894वाई) दिनेश सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70861एन) अंकित मिश्रा, आर्टी	(आईसी-70895एफ) दीपक मिश्रा, आर्टी
(आईसी-70862डब्ल्यू) रामसहाय साई अनवेश, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70896के) कुलकर्णी आदित्य दत्तात्रेय, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70863वाई) संदीप कुमार, आर्टी	(आईसी-70897एम) निशान्त करोल, एसी
(आईसी-70864एफ) डी आर संदीप, आर्टी	(आईसी-70898पी) अजीत वी नायर, आर्टी
(आईसी-70865के) विश्वनाथ सिंह, आर्टी	(आईसी-70899एक्स) अजय सिंह बेरवाल, ईएमई
(आईसी-70866एम) विनीत जगदेव, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70900एफ) सौरभ केसरी, इंजीनियर्स
(आईसी-70867पी) विक्की गाहल्याण, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70901के) मो. अली आरजु शाहनवाज़, आर्टी
(आईसी-70868एक्स) नवप्रीत सिंह बाठ, एसी	(आईसी-70902एम) आदित्य मल्होत्रा, एसी
(आईसी-70869ए) अमित भारद्वाज, इंजीनियर्स	(आईसी-70903पी) यशवीर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70870पी) प्रियांक सतीश निंबालकर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70904एक्स) मधु मनीष, आर्टी
(आईसी-70871एक्स) बलराज सिंह रन्धावा, इंजीनियर्स	(आईसी-70905ए) नरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70872ए) सतीश कुमार सिंह, एएससी	(आईसी-70906एच) दिव्येन्दु शेखर दुबे, मैक
(आईसी-70873एच) कुमार सौरभ, आर्टी	(आईसी-70907एल) सुभाष चन्द्रन नायर बी, एएडी
(आईसी-70874एल) परितोष नाथ शुक्ला, आर्टी	(आईसी-70908एन) तुषार सिंह, ईएमई
(आईसी-70875एन) एस प्रोबिर सिंघा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70909डब्ल्यू) वैभव उपासनी, इंजीनियर्स
(आईसी-70876डब्ल्यू) प्रशान्त किशोर मिश्रा, एसी	(आईसी-70910एल) मनीष कुमार कादयान, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70877वाई) रजनीश मेहता, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70911एन) चन्द्र प्रकाश सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70878एफ) नन्दलाल, आर्टी	(आईसी-70912डब्ल्यू) इरागवरापू वि. एस रंगनाद, आर्टी
(आईसी-70879के) पवन कुमार सिंह, एएडी	(आईसी-70913वाई) के पार्थिवन, आर्टी
(आईसी-70880वाई) अनूप प्रताप सिंह, आर्टी	(आईसी-70914एफ) वाई आशीष कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70881एफ) गणेश नटराजन, मैक	(आईसी-70915के) राहुल महाजन, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70882के) साहिल, आर्टी	(आईसी-70916एम) आर एस ओबेद, एएससी
(आईसी-70883एम) विजय कुमार, एएडी	(आईसी-70917पी) संजय विष्ट, इन्फैन्ट्री

(आईसी-70918एक्स) अंगद कुमार, आर्टी	(आईसी-70953ए) संदीप कुमार यादव, आर्टी
(आईसी-70919ए) इशिताव वशिष्ठ, एसी	(आईसी-70954एच) राहुल सेठ, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70920पी) नीरज बैनीवाल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70955एल) अनवर रज़ा काज़मी, आर्टी
(आईसी-70921एक्स) संदीप कुमार नेहरा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70956एन) वैकोम हेमन्त सिंह, एओसी
(आईसी-70922ए) नीलाभ भारद्वाज, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70957डब्ल्यू) रविन्द्र नेगी, ईएमई
(आईसी-70923एच) सौरभ सिरौही, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70958वाई) कुणाल पाल, सिग्नल्स
(आईसी-70924एल) विवेक कुमार, आर्टी	✓ (आईसी-70959एफ) मुकेश नेगी, मैक
(आईसी-70925एन) राहुल चन्द्रन, आर्टी	(आईसी-70960डब्ल्यू) बिजेन्द्र सिंह, एएससी
(आईसी-70926डब्ल्यू) विश्वनाथ, आर्टी	(आईसी-70961वाई) अरोरा अभिजीत सिंह महेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70927वाई) सुजीत कुमार, आर्टी	(आईसी-70962एफ) चरणजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70928एफ) आशुतोष शर्मा, आर्टी	(आईसी-70963के) के एल राघवेन्द्र, आर्टी
(आईसी-70929के) नरेश कुमार महला, आर्टी	(आईसी-70964एम) सिद्धार्थ सौरभ, आर्टी
(आईसी-70930वाई) विक्रम गौड़, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70965पी) ज्योतिष कुमार मंगलम्, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70931एफ) रोहित रत्न, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70966एक्स) उदय सिंह परमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70932के) एसएस बाबू, एसी	(आईसी-70967ए) तापडिया आकाश अशोक, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70933एम) रमन कुमार, इन्फैन्ट्री	✓ (आईसी-70968एच) पुष्पेन्द्र सिंह राजपूत, मैक
(आईसी-70934पी) रोहन तंपी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70969एल) अनिल कुमार, आर्टी
(आईसी-70935एक्स) राजीव डेमरा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70970ए) गौरव शर्मा, आर्टी
(आईसी-70936ए) रूपक कुमार ठाकुर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70971एच) देशमुख विक्रांत अजित, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70937एच) श्रीधर हिरेमठ, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70972एल) चन्दन कुमार, आर्टी
(आईसी-70938एल) सुमित सरदाना, आर्टी	(आईसी-70973एन) अमृतेश विक्रम, इंजीनियर्स
(आईसी-70939एन) जानी एसी, आर्टी	(आईसी-70974डब्ल्यू) हर्ष वर्धन, एएडी
(आईसी-70940एच) रविन्द्र सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70975वाई) प्रशांत सावंत, इंजीनियर्स
(आईसी-70941एल) विशाल द्विवेदी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70976एफ) कुमार गौरव, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70942एन) सबास्टियन एम, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70977के) पुलकित दिवान, ईएमई
(आईसी-70944वाई) पुल्लेश राय, आर्टी	(आईसी-70978एम) अरुण डी एस, आर्टी
(आईसी-70945एफ) राकेश चन्द्र भट्ट, ईएमई	(आईसी-70979पी) हर्ष जी आर, एसी
(आईसी-70946के) अनुभव थापा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70980के) कुमार गौरव, आर्टी
(आईसी-70947एम) अवनीश शुक्ला, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70981एम) विजय थापा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70948पी) विकास राणा, आर्टी	(आईसी-70982पी) मन्मथ खण्डुआल, आर्टी
✓ (आईसी-70949एक्स) अखिल सुहाग, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70983एक्स) राहुल राणा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70950एम) दीपक खुराना, एएडी	(आईसी-70984ए) रोहित कुमार बारिक, एसी
(आईसी-70951पी) नवीन शर्मा, एओसी	(आईसी-70985एच) धर्मेन्द्र सिंह, एओसी
(आईसी-70952एक्स) करण कालरा, एसी	(आईसी-70986एल) बिरंचि नारायण त्रिपाठी, एएडी
	(आईसी-70987एन) मोहित कुमार जैन, आर्टी

(आईसी-70988डब्ल्यू) वीरेंद्र सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70989वाई) राज कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70990एन) लिन्सन लॉरेन्स, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70991डब्ल्यू) तुषार शर्मा, आर्टी
 (आईसी-70992वाई) गुप्ति बालाजी निरंजन, आर्टी
 (आईसी-70993एफ) एस श्याम शशीधर, इंजीनियर्स
 (आईसी-70994के) प्रियंक श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
 ✓(आईसी-70995एम) रायपुरे विशाल भगवान, मैक
 (आईसी-70996पी) दीपक नन्दल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70997एक्स) सौरभ सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70998ए) अमरबीर सिंह भिन्डर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70999एच) रमन भारद्वाज, आर्टी
 (आईसी-71000के) रूपक कुमार, आर्टी
 (आईसी-71001एम) श्वेतांक सरन, एसी
 (आईसी-71002पी) सुदिप्तो साहा, इंजीनियर्स
 (आईसी-71003एक्स) अल्फी एलदो के, एएडी
 (आईसी-71004ए) रमनदीप सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71005एच) टी आर स्वामीदास, आर्टी
 (आईसी-71006एल) गौरव नेगी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71007एन) राहुल, आर्टी
 (आईसी-71008डब्ल्यू) दिलिप सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71009वाई) मयुरेश रमेश बारभाई, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71010एन) जपेन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71011डब्ल्यू) वरुण कुमार चौधरी, आर्टी
 (आईसी-71012वाई) रणबीर सिंह, आर्टी
 (आईसी-71013एफ) आर नवीन कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71014के) अश्वनी कुमार, ईएमई
 (आईसी-71015एम) दीपक सिंह मन्हास, एएडी
 (आईसी-71016पी) मनीष कुमार पाण्डेय, आर्टी
 (आईसी-71017एक्स) अनुज कुमार, एसी
 (आईसी-71018ए) अविनाश कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71019एच) अनुपम शर्मा, एएससी
 (आईसी-71020एक्स) राणा रवीन्द्र सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-71021ए) शिंदे धनराज दिलिप, आर्टी
 (आईसी-71022एच) गौंठे सौरभ अनिल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71023एल) एस प्रवीण कुमार, एसी
 (आईसी-71024एन) विक्रम शेखावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71025डब्ल्यू) निखिल राठौड़, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71026वाई) नागेश प्राशर, इंजीनियर्स
 (आईसी-71027एफ) पियूष कौशल, एएडी
 (आईसी-71028के) हीमांशु यादव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71029एम) हिमांशु आले, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71030एफ) दिवेश पोसवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71031के) अनिल कुमार लुहाच, एएससी
 (आईसी-71032एम) उल्लास कुमार वी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71033पी) राजबीर, इन्फैन्ट्री
 ✓(आईसी-71034एक्स) अतुल दिनेश मिह्रा, मैक
 (आईसी-71035ए) श्वेतेज, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71036एच) अभिनीत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71037एल) लोकेन्द्र सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71038एन) सन्तोष नेगी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71039डब्ल्यू) सुनील सांगवान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71040एल) वरुण कुमार गुण्डवरपू, ईएमई
 (आईसी-71041एन) पवनीत नरुला, एएडी
 (आईसी-71042डब्ल्यू) दीपक सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71043वाई) प्रशांत सनवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71044एफ) अनिमेष रावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71045के) लोकेश चौहान, आर्टी
 (आईसी-71046एम) रविन्द्र सिंह मन्हास, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71047पी) शिशांक शर्मा, एसी
 (आईसी-71048एक्स) ध्रुव राजन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71049ए) आकाश पाण्डे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71050पी) राहुल कुमार राय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71051एक्स) अमित सक्सेना, एएडी
 (आईसी-71052ए) शशि किशोर, आर्टी
 (आईसी-71053एच) सोनम कुमार जायसवाल, ईएमई
 (आईसी-71054एल) अनुराग उपाध्याय, आर्टी
 (आईसी-71055एन) प्रबीर गोगोई, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71056डब्ल्यू) राजीबलोचन प्रधान, आर्टी
 (आईसी-71057वाई) कुलदीप शर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71058एफ) सक्षम शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71059के) विकास कुमार, आर्टी
 (आईसी-71060वाई) अरुणदीप सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-71061एफ) विजय कुमार शर्मा, आर्टी
 (आईसी-71062के) गौरव बिष्ट, आर्टी
 (आईसी-71063एम) विष्णु दत्त त्रिवेदी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71064पी) शैलेन्द्र सिंह मेहता, इंजीनियर्स
 (आईसी-71065एक्स) जितेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-71066ए) हर्षवर्धन दधीच, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71067एच) रवि कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71068एल) तनुज नौटियाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71069एन) रोहित पोरवाल, आर्टी
 (आईसी-71070एच) लिबू अब्राहम, आर्टी
 (आईसी-71071एल) आशीष मिश्रा, आर्टी
 (आईसी-71072एन) कमल थवानी, एसी
 (आईसी-71073डब्ल्यू) सानप कैलाश पंडारीनाथ, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71074वाई) राजेश जोशी, एण्डी
 (आईसी-71075एफ) साहिल खुराना, आर्टी
 (आईसी-71076के) विकास कटोच, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71077एम) आलोक कुमार पाण्डेय, मैक
 (आईसी-71078पी) लिटुल गोर्गोई, एएससी
 (आईसी-71079एक्स) भूपेन्द्र सिंह उज्जवल, एसी
 (आईसी-71080एम) अंकित नेगी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71081पी) विपिन कुमार गौड़, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71082एक्स) प्रवीण कुमार पारेख, आर्टी
 (आईसी-71083ए) सुरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71084एच) अश्विन शाह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71085एल) अनोध कुमार चन्दा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71086एन) जगदीश सौमप्या रचनवर, इंजीनियर्स
 (आईसी-71087डब्ल्यू) वनकुल शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71088वाई) एस गौतम, आर्टी
 (आईसी-71089एफ) विक्रम सिंह कादयान, ईएमई
 (आईसी-71090डब्ल्यू) शिवेश सिंह थापा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71091वाई) सिद्धार्थ सिंह, एसी
 (आईसी-71092एफ) अतुल यादव, इन्फैन्ट्री

(आईसी-71093के) क्षितीज शुक्ला, एण्डी
 (आईसी-71094एम) अमित कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71095पी) विजेन्द्र सिंह शेखावत, आर्टी
 (आईसी-71096एक्स) दलजीत सिंह ढिल्लों, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71097ए) निशांत कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71098एच) उमेश चन्द्र जोशी, आर्टी
 (आईसी-71099एल) हरीश शर्मा, आर्टी
 (आईसी-71100पी) हरीश कुमार विजेन्द्रन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71101एक्स) आशिष रंजन दूबे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71102ए) श्रीकांत एल, इंजीनियर्स
 (आईसी-71103एच) गाड़गिल सचिन श्रीकांत, आर्टी
 (आईसी-71104एल) वी एम विक्रम वीरराघवन, आर्टी
 (आईसी-71105एन) उपकार तिवारी, आर्टी
 (आईसी-71106डब्ल्यू) तरुण कुमार, मैक
 (आईसी-71107वाई) राघव खण्डूरी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-71108एफ) यदविन्दर सिंह बाहू, एसी
 (आईसी-71109के) सप्तर्षि सरकार, एण्डी
 (आईसी-71110वाई) सूरज आर, आर्टी

निम्नलिखित 05 (पाँच) जैण्टलमैन कैडेट्स, जोकि 105 टी जी सी पाठ्यक्रम और 16 यू ई एस पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) और यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं, को 07 जून 2008 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 11 जून 2006 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93 यथासंशोधित के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है :--

टी/6532 तरसेम (आईसी-70671एफ), एण्डी की वरिष्ठता यू/797 चैतन्य सांगवान (आईसी-70670वाई), ईएमई के नीचे, यू/808 गुरजंत सिंह (आईसी-70686के), सिग्नल्स की वरिष्ठता यू/738 तपन नौडियाल (आईसी-70685एफ), इंजीनियर्स के नीचे, टी/6499 गोरेगांवकर अभिषेक प्रफुल्ल (आईसी-70705के), सिग्नल्स की वरिष्ठता टी/6520 फलटणे आनंद नंदकुमार (आईसी-70704एफ), इंटी के नीचे, टी/6541 साईनाथ कितूर (आईसी-70709ए), इंजीनियर्स की वरिष्ठता यू/810 विशाल राणा (आईसी-70708एक्स), ईएमई के नीचे और यू/835 भूपेन्द्र कुमार (आईसी-70729एन), इंजीनियर्स की वरिष्ठता यू/762 सार्थक मेहता (आईसी-70728एल), ईएमई के नीचे प्रकाशित किए जाएं, जिनके नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 21 फरवरी 2009 को प्रकाशित हो चुके हैं।

अल्प सेवा आयोग

लेफ्टि के पद पर

निम्नलिखित अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग में छः मास का समय जोकि 22 मार्च 2008 से आरंभ हुआ था, लेफ्टि के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 22 मार्च 2008 से अल्प सेवा आयोग में लेफ्टि के पद पर पाँच वर्ष के लिए विशेष सेनानुदेश 3/एस/98 संशोधित के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है :--

मुखर्जी सौम्यनारायण मृत्युंजय (एसएस-42904एफ), इंजीनियर्स निर्दिष्टता ज्येष्ठता लेफ्टि तनुज दीपक राव मॉडिलक (एस एस-42903 वाई), इन्फैन्ट्री और रजक जाखड़ (एसएस-42910पी), इन्फैन्ट्री निर्दिष्टता ज्येष्ठता लेफ्टि प्रीतम सिंह कुंवर (एसएस-42909ए), इन्फैन्ट्री जिनका नाम भारतवर्ष के राजपत्र में दिनांक 08 नवम्बर 2008 को प्रकाशित हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

निम्नलिखित 04 (चार) जैण्टलमैन कैडेट्स जोकि 105 टी जी सी पाठ्यक्रम और 16 यू ई एस पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए, जोकि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :--

आईएमए संख्या, नाम, एसएस संख्या, आर्म्स/सर्विस तथा अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

105 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम

टी/6532 तरसेम (43055एक्स), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2007

टी/6541 साईनाथ कितूर (43064वाई), ईएमई, 02 अगस्त 2007

16 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम

यू/808 गुरजंत सिंह (43140ए), सिग्नल्स, 02 अगस्त 2006

यू/835 भूपेन्द्र कुमार (43167एक्स), ईएमई, 16 जुलाई 2007

जैण्टलमैन कैडेट्स को दिए गए आर्म्स/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट्स जोकि 104 टी जी सी पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए, जोकि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :--

आईएमए संख्या, नाम, एसएस संख्या, आर्म्स/सर्विस तथा अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

104 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम

टी/6499 गोरेगांवकर अभिषेक प्रफुल्ल (42862ए), ईएमई, 01 फरवरी 2007

नीलेश चौधरी

लेफ्टि कर्नल

एमएमएस-8बी

थल सेना विभाग

सं. 566, दिनांक 19 अगस्त 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं :--

नियमित सेना

रथा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर अजायब सिंह (जेसी-218161पी), पहले पैरा रेजिमेंट, 14 जुलाई 2008

सूबेदार मेजर अजित सिंह (जेसी-211012वाई), पहले राज राईफल्स, 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार मेजर करन सिंह (जेसी-257281के), पहले आर्टी रेजिमेंट, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मोहन चन्द्र कर्नाटक (जेसी-590110डब्ल्यू), पहले कुमाऊँ रेजिमेंट, 07 सितम्बर 2008

सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-328357एल), पहले बंगाल इंजीनियर ग्रुप, 07 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार गणेश सिंह (जेसी-538213ए), पहले कुमाऊँ रेजिमेंट, 14 जुलाई 2008

नायब सूबेदार दिनन के (जेसी-263043एन), पहले आर्टी रेजिमेंट, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार बीर बहादुर साही (जेसी-623415वाई), पहले 8जीआर, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार एल थंगाखोलुन कुकी (जेसी-548782एफ), पहले आसाम रेजिमेंट, 22 दिसम्बर 2008

प्रदीप कुमार

अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 567, दिनांक 20 अगस्त 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर-नॉन-टेक)

कर्नल (और समकक्ष) से ब्रिगेडियर (और समकक्ष) के पद पर

वाई एस गुलेरिया (एनटीआर-16369पी), 01 जनवरी 2009

यश पाण्डे

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक ससेचिसे (एचआर)

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

(स्थायी कमीशन)

सं. 568, दिनांक 21 अगस्त 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं:--

कर्नल से ब्रिगेडियर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा पदोन्नति की तारीख

ब्रिगेडियर विपिन यादव (एनआर-15619वाई), 01 अप्रैल 2009

ब्रिगेडियर जया अग्निहोत्री (एनआर-15862डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

ले. कर्नल सेलेक्ट से कर्नल

पद और नाम, व्यक्तिगत सं. एवं पदोन्नति की तारीख

कर्नल अच्चम्मा (एनआर-16331एल), 01 मई 2008

जेन पिंगफू (एनआर-16257पी), 25 जनवरी 2008

ले. कर्नल (टीएस) से ले. कर्नल (सैलेक्ट)

ले. कर्नल अच्चम्मा वी पी (एनआर-16331एल), 25 अगस्त 2003

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक (एमएनएस)

थल सेना शाखा

सं. 569, दिनांक 24 अगस्त 2009--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

सर्जन कमाण्डर/सर्जन कैप्टन (टीएस) से सर्जन कैप्टन (चयन)
(व समकक्ष) के पद पर

एस गोयल (एमआर-05302डब्ल्यू)/75364)--23 जनवरी 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है।

यश पाण्डे

ब्रिगेडियर

उप म नि ससेचि सेवा (कार्मिक)

सेना शाखा

सं. 570, दिनांक 25 अगस्त 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आईसी सं., नाम एवं आर्म

(37859) प्रशांत रंजन शर्मा, इंजीनियर्स

--16 दिसम्बर 2004

जसवन्त सिंह

संयुक्त निदेशक

एमएस-8सी

सेना शाखा

सं. 571, दिनांक 26 अगस्त 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन नवदीप सिंह (टीए-42481), इन्फैन्ट्री, 02 अक्टूबर 2008

कैप्टन हेमंत गम्भीर (टीए-42505), इन्फैन्ट्री, 27 मार्च 2009

कैप्टन संजय नेहरा (टीए-42508), इन्फैन्ट्री, 27 मार्च 2009

कैप्टन वी के सेठ (टीए-42509), इन्फैन्ट्री, 27 मार्च 2009

कैप्टन दीपक कुमार (टीए-42510), इन्फैन्ट्री, 27 मार्च 2009

कैप्टन अरविन्द डगर (टीए-42512), इन्फैन्ट्री, 27 मार्च 2009

कैप्टन हरमिन्दर सिंह (टीए-42513), इन्फैन्ट्री, 29 मार्च 2009

कैप्टन पी के वर्मा (टीए-42516), इन्फैन्ट्री, 27 मार्च 2009

जय राज

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 572, दिनांक 27 अगस्त 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आईसी नं., नाम एवं आर्म

(62393) धनजय हर्ष द्रविड़, एसी

--08 जून 2008

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस. सी.)

ले से कप्तान

एससीसं., नाम एवं आर्म

(00522) सत्यपाल, एओसी

(00523) अमर सिंह, एसी

(00524) संतोष कुमार, एससी

(00525) डिवकाला गोपीनाथम, आर्टी

(00526) संजीव मिश्रा, आर्टी

(00527) छितार राम, मैक इन्फैन्ट्री

(00528) रामाचन्द्रन एम के, आर्टी

(00529) मुक्ति परशाद शर्मा, आर्टी

(00530) आर कन्नन, एसी

(00531) विकास कुमार, आर्टी

(00532) गुरुसिद्दार्थ राबाकाविमाथ, एओसी

(00533) कुलविन्दर सिंह, आर्टी

--09 जून 2009

जसवन्त सिंह

संयुक्त निदेशक

एमएस-8सी

थल सेना विभाग

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सं. 573, दिनांक 28 अगस्त 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार रिसाल चन्द (जेसी-840357ए), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार भनवर लाल (जेसी-448178एफ), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार वल्सलन टी (जेसी-208039एल), 01 जून 2009

सूबेदार मथाई टी एस (जेसी-840440एक्स), 01 जून 2009

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार श्री कृष्णा प्रसाद (जेसी-841249एच), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार भजन सिंह (जेसी-841254एन), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार अत्तर सिंह (जेसी-402463एफ), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार नरदेव सिंह (जेसी-579195एक्स), 01 मई 2009

नायब सूबेदार गोविन्दन श्रीरंगम (जेसी-159770वाई), 01 जून 2009

नायब सूबेदार रणबीर सिंह मलिक (जेसी-402678ए), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार विजय पाल सिंह जायरा (जेसी-528622ए), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार सतीश कुमार चन्डेल (जेसी-579018एक्स), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार श्याम लाल महतो (जेसी-178071एच), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार प्रसाद वी एन (जेसी-841276एम), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार शेर बहादुर थापा (जेसी-841285एन), 01 जुलाई 2009

स्थायी सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) मान सिंह (जेसी-840855एम), 01 जुलाई 2009

स्थायी सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) सुनिल प्रसाद शाही (जेसी-841771एल), 01 जून 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) रजिन्दर सिंह मनहास (जेसी-841772एन), 01 जून 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) बचिन्द्र सिंह (जेसी-841796एक्स), 01 जून 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) श्रीधर मोहन्ती (जेसी-841819एन), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) जगदानन्द मोहन्ती (जेसी-841868डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009

हवलदार प्रदीप सिंह (10314163पी अब जेसी-842528ए), 01 मई 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009)

हवलदार नकुलेश्वर पांडे (सं. 10404249पी अब जेसी-842297पी), 01 जून 2009**

हवलदार नथु राम नावलु (सं. 10435652एच अब जेसी-842536वाई), 01 जून 2009**

हवलदार श्रवण कुमार सिंह (सं. 2973264एम अब जेसी-842540एफ), 01 जून 2009**

हवलदार भरत कुमार थापा (सं. 5242783के अब जेसी-842541के), 01 जून 2009**

हवलदार उमेश चन्द्रा (सं. 4055752एच अब जेसी-842542एम), 01 जून 2009**

हवलदार राजिन्द्र सिंह (सं. 10134994एल अब जेसी-842544एक्स), 01 जून 2009**

हवलदार के अरविन्दक्षन (सं. 10165557एम अब जेसी-842546एच), 01 जून 2009**

हवलदार जगत सिंह (सं. 9214679वाई अब जेसी-842549डब्ल्यू), 01 जून 2009**

हवलदार बरसाती सिंह यादव (सं. 4164957एन अब जेसी-842551एन), 01 जून 2009**

हवलदार बज राम (सं. 9081610एक्स अब जेसी-842556एम), 01 जून 2009**

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 10404759डब्ल्यू अब जेसी-842559ए), 01 जून 2009**

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 3369663एक्स अब जेसी-842560पी), 04 जून 2009**

हवलदार हरी कान्त शर्मा (सं. 7766699एक्स अब जेसी-842561एक्स), 01 जून 2009**

हवलदार ब्रिजपाल सिंह (सं. 13808518के अब जेसी-842563एच), 01 जून 2009**

हवलदार शिवा तमन्ग (सं. 10372943एल अब जेसी-842564एल), 01 जून 2009**

हवलदार गजे सिंह (सं. 4054769के अब जेसी-842566डब्ल्यू), 01 जून 2009**

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 10404275डब्ल्यू अब जेसी-842567वाई), 01 जून 2009**

हवलदार विमल चन्द्रा दास (सं. 10243999ए अब जेसी-842575एक्स), 01 जून 2009**

हवलदार कपूर सिंह (सं. 10361165एल अब जेसी-842576ए),
11 जून 2009**

हवलदार हरदयाल सिंह (सं. 10135037एम अब जेसी-842580एच),
01 जून 2009**

हवलदार मंगला प्रसाद सिंह (सं. 2973110ए अब जेसी-842585एफ),
04 जून 2009**

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) राम सिंह (सं. 13968313एन अब
जेसी-842532एच), 01 जून 2009**

हवलदार (लिपिक) उदय सिंह लामा (सं. 5843208एम अब
जेसी-842533एल), 08 जून 2009**

**(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009)

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

सं 574, दिनांक 31 अगस्त 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
पदोन्नतियाँ करते हैं:--

इन्फैन्ट्री

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

रिक्रूट आ टी निशान सिंह (सं. 580821एच अब जेसी-580821एच),
28 मार्च 2009

क्वचित कोर

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार मथाई वाय (जेसी-241438पी), 02 मई 2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बिचीतर सिंह (जेसी-241727के), 26 जुलाई 2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कप्तान सिंह (जेसी-241785एन), 14 जुलाई 2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार भगीरथ राम खिलेरी (जेसी-241786डब्ल्यू), 09 जुलाई
2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मेशो कुमार (जेसी-241914एच), 14 जुलाई 2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कुलदीप सिंह (जेसी-241717ए), 12 जुलाई 2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार ओ प्रिजोधोजा सिंघा (जेसी-242028एल), 30 जुलाई
2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कुलदीप सिंह (जेसी-240819के), 07 जुलाई 2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गुरदीप कुमार (जेसी-241149ए), 25 जुलाई 2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शिंदे हनमंत विठोबा (जेसी-241355के), 08 अगस्त
2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार महेन्द्र पाल सिंह (जेसी-240901वाई), 23 जुलाई
2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गुम्माडी श्रीनिवास (जेसी-241239एफ), 07 अगस्त
2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सरवन कुमार (जेसी-241884डब्ल्यू), 23 जुलाई
2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुरम चन्द (जेसी-242006एम), 17 जुलाई 2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रेख पाल यादव (जेसी-240110एफ), 12 जुलाई
2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सतेन्द्र पाल सिंह (जेसी-241810एफ), 11 सितम्बर
2008*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राज पाल सिंह (जेसी-240708एम), 18 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार वाई जादुमनी सिंह (जेसी-241347एल), 12 अगस्त 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार नन्दा कुमार के एम (जेसी-241522पी), 12 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राकेश कुमार (जेसी-241842के), 12 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शिव प्रेम चन्द (जेसी-241869एफ), 12 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राम परवेश (जेसी-241122एच), 09 अगस्त 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मीर जहांगीर अली (जेसी-241589एन), 09 अगस्त 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार तेज भान शर्मा (जेसी-241262पी), 14 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार भरत सिंह (जेसी-241018पी), 07 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार टी कृष्णन (जेसी-241145के), 29 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुल्तान सिंह (जेसी-240755के), 25 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शेंडगे तानाजी अनन्ता (जेसी-241388पी), 14 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कटुरी शिवा शंकर बाबु (जेसी-241489एच), 14 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रिया राजन सी पी (जेसी-241490एक्स), 14 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कोलेकर तुकाराम अका राम (जेसी-241166ए), 24 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार वाडे राम चन्द्र ज्ञानु (जेसी-241431एल), 30 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रनजीत सिंह (जेसी-242032एन), 19 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार हरन चन्द्र साहा (जेसी-240685डब्ल्यू), 29 जुलाई 2008 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार हारी राज सिंह (जेसी-241270एन), 01 अगस्त 2008

नायब रिसालदार समशेर बहादुर थापा (जेसी-240925एच), 01 अगस्त 2008

नायब रिसालदार मारा भाथीनी श्रीनिवास राव (जेसी-241064के), 01 अगस्त 2008

नायब रिसालदार मिथलेश कुमार तिवारी (जेसी-241905एफ), 01 अगस्त 2008

नायब रिसालदार अनुपम लाल (जेसी-241908पी), 01 अगस्त 2008

नायब रिसालदार ईंगले प्रकाश सखाराम (जेसी-241958ए), 01 अगस्त 2008

स्थायी नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार/क्लर्क वेद प्रकाश सिंह (सं. 1087519ए अब जेसी-243448एक्स), 04 फरवरी 2009 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

दफादार/एसकेटी एस कृष्णा मूर्ति (सं. 1084843एम अब जेसी-243489एक्स), 01 फरवरी 2009*

दफादार/क्लर्क किशन सिंह (सं. 1088834एच अब जेसी-243481पी), 02 मार्च 2009*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क शंकर लाल (सं. 1088766ए अब जेसी-243480एम), 01 मार्च 2009

दफादार/क्लर्क मुन्ना राय (सं. 1088859पी अब जेसी-243482एक्स), 01 अप्रैल 2009

दफादार/क्लर्क परमेश्वर अगाशा (सं. 1088869वाई अब जेसी-243483ए), 01 अप्रैल 2009

दफादार/क्लर्क नगेन्द्र कुमार वर्मा (सं. 1088882एच अब जेसी-243484एच), 01 अप्रैल 2009

दफादार/क्लर्क प्रदीप कुमार मुनी (सं. 1087017एक्स अब जेसी-243553एन), 01 मई 2009

दफादार/क्लर्क सुरेश कुमार (सं. 1088852एल अब जेसी-243554डब्ल्यू), 01 मई 2009

दफादार/क्लर्क पवार बालासाहेब अप्पासाहेब (सं. 1088565एफ अब जेसी-243555वाई), 01 जून 2009

दफादार/क्लर्क सोलंकी साउभाई लक्ष्मण भाई (सं. 1088902एल अब जेसी-243556एफ), 01 जून 2009

दफादार/क्लर्क बसन्त प्रसाद सिंह (सं. 1088967वाई अब जेसी-243557के), 01 जून 2009

दफादार/क्लर्क सेख नौशाद (सं. 1089038एम अब जेसी-243558एम), 01 जून 2009

दफादार/क्लर्क पुष्पेन्द्र कुमावत (सं. 1089078एन अब जेसी-243560के), 01 जून 2009

जे राय चौधरी
अवर सचिव

थल सेना शाखा

इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक अभियंता कोर

सं. 575, दिनांक 01 सितम्बर 2008--राष्ट्रपति महोदय, श्री बिदयोत पंगिम, कार्यकारी अभियन्ता को दिनांक 23 जुलाई 2009 (पूर्वाह्न) से ई एम ई कोर रक्षा मंत्रालय में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति महोदय, श्री नवीन नगप्पा, एस एम, सहायक कार्यकारी अभियन्ता को दिनांक 10 नवम्बर 2008 (पूर्वाह्न) से ई एम ई कोर रक्षा मंत्रालय में कार्यकारी अभियन्ता के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 576, दिनांक 02 सितम्बर 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

उड़ान शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में

एस आर घरपुरे (17192), उ.ने., 01 अक्टूबर 2003/14 मई 2001 (नो.से.)

(इनका नाम विंग कमांडर ए एस कोल्हे (17437) उ.पा. के ऊपर आएगा)

एस बाद्याल (17478), उ.ने., 01 अक्टूबर 2003/14 मई 2001 (नो.से.)

आर वेंकटरमन (17480), उ.ने., 01 अक्टूबर 2003/14 मई 2001 (नो.से.)

(इनका नाम विंग कमांडर ए पी सिंह (17695) उ.पा. के ऊपर आएगा)

मंजीत सिंह

संयुक्त निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

सं. 577, दिनांक 03 सितम्बर 2008--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव श्री जे. बी. खोकरा (सी एस एल संख्या 6092 और जन्म-तिथि 15 अगस्त 1949) की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 अगस्त 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के मुरली
अवर सचिव

(वायु शाखा)

सं. 578, दिनांक 4 सितम्बर 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गयी दिनांक से प्रशासनिक शाखा से उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में परिवर्तित करते हैं, इस शाखा में उसकी आयोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जायेगी मानो उसे मूल कमीशन ही उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में प्राप्त हुआ है। अफसर को वायु सेना सूची में विंग कमांडर के पार्तीबान (17373) उड़ान (पायलट) और विंग कमांडर ए एस खोल्ले (17437) उड़ान (पायलट) के मध्य रखा जायेगा। वा. से. मु./21641/17192/पी. ओ.-1 (ए) (टी) दिनांक 04 फरवरी 2004 के अनुसार शाखा परिवर्तन होने की वजह से अफसर 01 अक्टूबर 2003 से उड़ान भत्ते का हकदार होगा।

विंग कमांडर एस आर घरपुरे (17192) प्रशासनिक शाखा से उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में 01 अक्टूबर 2003 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गयी दिनांक से प्रशासनिक शाखा से उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में परिवर्तित करते हैं, इस शाखा में उसकी आयोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जायेगी

मानो उसे मूल कमीशन ही उडान (नेवीगेटर) शाखा में प्राप्त हुआ है। अफसर को वायु सेना सूची में विंग कमांडर के ए के परीदा (17476) उडान (पायलट) और विंग कमांडर ए पी सिंह (17695) उडान (पायलट) के मध्य रखा जायेगा। वा. से. मु./21641/17478/पी. ओ.-1 (ए) (टी) दिनांक 04 फरवरी 2004 के अनुसार शाखा परिवर्तन होने की वजह से अफसर 01 अक्टूबर 2003 से उडान भत्ते का हकदार होगा।

विंग कमांडर एस बडयाल (17478) प्रशासनिक शाखा से उडान (नेवीगेटर) शाखा में 01 अक्टूबर 2003 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गयी दिनांक से प्रशासनिक शाखा से उडान (नेवीगेटर) शाखा में परिवर्तित करते हैं, इस शाखा में उसकी आयोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जायेगी मानो उसे मूल कमीशन ही उडान (नेवीगेटर) शाखा में प्राप्त हुआ है। अफसर को वायु सेना सूची में विंग कमांडर एस बडयाल (17478) उडान (नेवीगेटर) और विंग कमांडर ए पी सिंह (17695) उडान (पायलट) के मध्य रखा जायेगा। वा. से. मु./21641/17480/पी. ओ.-1 (ए) (टी) दिनांक 04 फरवरी 2004 के अनुसार शाखा परिवर्तन होने की वजह से अफसर 01 अक्टूबर 2003 से उडान भत्ते का हकदार होगा।

विंग कमांडर आर वेंकटरमन (17480) प्रशासनिक शाखा से उडान (नेवीगेटर) शाखा में 01 अक्टूबर 2003 से।

एस श्रीनिवासन
विंग कमांडर
जेडीपीओ-1(टी)

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 579, दिनांक 7 सितम्बर 2008--

भारत के राजपत्र में दिनांक 25 जून 2005 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

आईसी: 54869 अपार क्रघनत्रे, एएससी के सामने--16 दिसम्बर 2004

के बदले

पढ़ा जाए: 21 अप्रैल 2004

आईसी: 55335 योगेंद्र पाल सिंह, इंजीनियर्स के सामने--16 दिसम्बर 2004

के बदले

पढ़ा जाए: 11 मई 2004

ले से कप्तान

भारत के राजपत्र में दिनांक 08 मार्च 2009 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "ले से कप्तान" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के बदले : आईसी-68842, अमरिन्दर सिंह मेहर, आर्टी

पढ़ा जाए : रिक्त

जसवन्त सिंह
संयुक्त निदेशक
एमएस-8सी

थल सेना विभाग

शुद्धि-पत्र

सं. 580, दिनांक 08 सितम्बर 2008--

सं. 41 में दिनांक 13 अक्टूबर 2007--

भारत के राजपत्र सं. 503 में दिनांक 18 सितम्बर 2007 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी रिसालदार धर्मशिक्षक विशेष सूची क्वचित कोर पृष्ठ सं. 1578 के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के बदले:--

(अ) नायब रिसालदार ग्रंथी हरपाल सिंह (जेसी-237069एल), 30 दिसम्बर 2006*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

पढ़ा जाये:--

(ब) नायब रिसालदार ग्रंथी हरपाल सिंह (जेसी-237069एल), 30 दिसम्बर 2006*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

जे राय चौधरी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th November 2009

No. 564, dated 17th August 2009—The President is pleased to appoint Shri S. Chandrasekaran, IRAS (1975) as Financial Adviser (Acquisition), Member (Defence Procurement Board) and Additional Secretary in the Ministry of Defence w.e.f. 17 Aug 2009 (FN).

The President is pleased to appoint Shri J.K. Jain, Principal Private Secretary of CSSS borne on the cadre of the Ministry of Communication & Information Technology, Deptt. of Telecommunications as Senior Principal Private Secretary in the Ministry of Defence on regular basis for the Select List Year 2009 in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 7th August, 2009, in pursuance of DOP&T OM No. 5/8/2009-CS.II, dated 22nd July, 2009.

K. MURALI,
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 565, dated 18th August 2009—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f. 13 Dec 2008)

The undermentioned Gentlemen Cadets of 123 Regular Course (123 DE, 113 Ex NDA and 90 Ex ACC) are granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 13 Dec 2008 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE, AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

IC No., Name and Arm/Service

(IC-70778W) Abhishek Gargmukh, Inf
(IC-70779Y) Atul Kumar Rai, AC
(IC-70780N) Kundan Kumar, Inf
(IC-70781W) Ajit Singh Negi, Inf
(IC-70782Y) Udit Pant, Inf
(IC-70783F) Bhawesh Ranjan, Inf
(IC-70784K) Aditya Sharma, Arty
(IC-70785M) Jaskaran Singh, Arty
(IC-70786P) Abhinav Marwal, Engrs
(IC-70787X) Lalit Mohan Palariya, Inf
(IC-70788A) Deore Anup Bipinchandra, Arty
(IC-70789H) Shete Umesh Bandopant, Inf

(IC-70790X) SP Deepak, Arty
(IC-70791A) Kumar Vaibhav, AAD
(IC-70792H) Santanu Bauri, Inf
(IC-70793L) Gaurav Grewal, EME
(IC-70794N) Ankit Khattri, Inf
(IC-70795W) Anand Kumar N, Arty
(IC-70796Y) Jewan Singh, Inf
(IC-70797F) Shailendra Singh Choudhary, Arty
(IC-70798K) Vishal Nanda, Inf
(IC-70799M) Vinay Rai, Inf
(IC-70800W) Abhinav Kumar Gaur, EME
(IC-70801Y) Srinivasan S, Mech. Inf
(IC-70802F) Lakshay, Inf
(IC-70803K) Arun Abey Mathew, Inf
(IC-70804M) Bhupinder Singh, SC, Inf
(IC-70805P) Abhinav Sribvastava, AAD
(IC-70806X) Sumit Sheoran, AC
(IC-70807A) Pankaj Dahiya, Engrs
(IC-70808H) Bandhe Rajesh Shriram, Inf
(IC-70809L) Shaurya Rana, Inf
(IC-70810A) Alokik Dogra, Inf
(IC-70811H) Abusayeed G Pate, Arty
(IC-70812L) Vikas Kumar Singh, Inf
(IC-70813N) Amit D Warang, Inf
(IC-70814W) Deepak Bhatt, Inf
(IC-70815Y) Prince B Ramesh, Engrs
(IC-70816F) Dushyant Singh Lamba, AC
(IC-70817K) Ashutosh Kumar Pandey, Inf
(IC-70818M) Pramoda P Prabhu, Inf
(IC-70819P) Wadhekar Sudhakar Ramdas, Inf
(IC-70820K) Ashok Bhardwaj, Mech Inf
(IC-70821M) Yogendra Kumar Rai, Inf
(IC-70822P) Akshay Kishore Dekhane, Inf
(IC-70823X) Sharad Chandra Singh, Arty
(IC-70824A) Ajit Kumar Pradhan, Inf
(IC-70825H) Harmalkar Nikhil Prakash, AAD
(IC-70826L) Akhilesh Chauhan, Inf
(IC-70827N) Harpreet Singh, Engrs

(IC-70828W) Dalvi Jeetendra Khandu, AC	(IC-70865K) Vishwnath Singh, Arty
(IC-70829Y) Ravikant Kushwaha, Inf	(IC-70866M) Vineet Jagdev, Inf
(IC-70830N) Ambrish Kumar Upadhyay, Inf	(IC-70867P) Vicky Gahlyan, Inf
(IC-70831W) Sachin Kumar, ASC	(IC-70868X) Navpreet Singh Baath, AC
(IC-70832Y) Pratyush Kumar Singh, EME	(IC-70869A) Amit Bhardwaj, Engrs
(IC-70833F) Bhanu Teja A, AAD	(IC-70870P) Priyank Satish Nimbalkar, Inf
(IC-70834K) Avinash Kumar Singh, Inf	(IC-70871X) Balraj Singh Randhawa, Engrs
(IC-70835M) Martin Arvind S, Arty	(IC-70872A) Satish Kumar Singh, ASC
(IC-70836P) CA Amit Prasad, AC	(IC-70873H) Kumar Saurabh, Arty
(IC-70837X) Amit Semwal, Inf	(IC-70874L) Paritosh Nath Shukla, Arty
(IC-70838A) Deepak Mehta, Arty	(IC-70875N) S Probir Singha, Inf
(IC-70839H) Jitendra Prajapati, Inf	(IC-70876W) Prashant Kishore Mishra, AC
(IC-70840X) Sandeep Dhull, Mech Inf	(IC-70877Y) Rajneesh Mehta, Inf
(IC-70841A) Bhupesh Singh Chuphal, AAD	(IC-70878F) Nandlal, Arty
(IC-70842H) Kalyanbabu Maimomcha, Inf	(IC-70879K) Pawan Kumar Singh, AAD
(IC-70843L) Vipin Chandra Dandriyal, Inf	(IC-70880Y) Anup Pratap Singh, Arty
(IC-70844N) Anil Kumar, Inf	(IC-70881F) Ganesh Natarajan, Mech, Inf ✓
(IC-70845W) Dalvi Nakul Jayant, Inf	(IC-70882K) Sahil, Arty
(IC-70846Y) Avneesh Anand Jha, AAD	(IC-70883M) Vijay Kumar, AAD
(IC-70847F) Sandeep Bhartiya, Inf	(IC-70884P) Debdulal Maity, Arty
(IC-70848K) Gauravjeet Chawla, EME	(IC-70885X) Deepak Rastogi, Inf
(IC-70849M) Alok Kumar Mondal, Arty	(IC-70886A) Vikas Sharma, Inf
(IC-70850F) Anoop V, Inf	(IC-70887H) Yashawant A Abhyankar, Arty
(IC-70851K) Abhishek Kulkarni, Engrs	(IC-70888L) Narahari V, Arty
(IC-70852M) Shailendra Singh Patel, ASC	(IC-70889N) Prabhat Kumar, Arty
(IC-70853P) Sandeep Sharma, Inf	(IC-70890H) Ashok Kumar Singh, Engrs
(IC-70854X) Makan Indrapratap Singh Nirmal Singh, AC	(IC-70891L) Deepak Kumar Mulai, Inf
(IC-70855A) Ashish Awasthi, Inf	(IC-70892N) Netke Deepak Keshav, Arty
(IC-70856H) Rajiv Kumar, Arty	(IC-70893W) Vineeth V. Inf
(IC-70857L) Jagpreet Singh Sodhi, Arty	(IC-70894Y) Dinesh Singh, Inf
(IC-70858N) Rohit Sheoran, Inf	(IC-70895F) Deepak Mishra, Arty
(IC-70859W) Prashant Priyadarshi, Arty	(IC-70896K) Kulkarni Aditya Dattatraya, Inf
(IC-70860L) Deepak Kumar Samal, Arty	(IC-70897M) Nishant Karol, AC
(IC-70861N) Ankit Misra, Arty	(IC-70898P) Ajith V Nair, Arty
(IC-70862W) Ramashayam Sai Anvesh, Inf	(IC-70899X) Ajay Singh Berwal, EME
(IC-70863Y) Sandeep Kumar, Arty	(IC-70900F) Saurabh Kesri, Engrs
(IC-70864F) D R Sandeep, Arty	(IC-70901K) Mohd Ali Arzoo Shanawaz, Arty
	(IC-70902M) Aditya Malhotra, AC

(IC-70903P) Yashvir, Inf	(IC-70942N) Sabastian M, Inf
(IC-70904X) Madhu Manish, Arty	(IC-70944Y) Pulakesh Roy, Arty
(IC-70905A) Narender Singh, Inf	(IC-70945F) Rakesh Chandra Bhatt, EME
(IC-70906H) Divyendu Shekhar Dubey, Mech Inf	(IC-70946K) Anubhav Thapa, Inf
(IC-70907L) Subhash Chandran Nair B, AAD	(IC-70947M) Avanish Shukla, Inf
(IC-70908N) Tushar Singh, EME	(IC-70948P) Vikas Rana, Arty
(IC-70909W) Vaibhav Upashni, Engrs	(IC-70949X) Akhil Suhag, Inf
(IC-70910L) Manish Kumar Kandian, Inf	(IC-70950M) Deepak Khurana, AAD
(IC-70911N) Chandra Prakash Singh, Inf	(IC-70951P) Naveen Sharma, AOC
(IC-70912W) Iragavarapu V S Ranganadh, Arty	(IC-70952X) Karan Kalra, AC
(IC-70913Y) K Parthiban, Arty	(IC-70953A) Sandeep Kumar Yadav, Arty
(IC-70914F) Y Ashish Kumar, Inf	(IC-70954H) Rahul Seth, Inf
(IC-70915K) Rahul Mahajan, Inf	(IC-70955L) Anver Raza Kazmi, Arty
(IC-70916M) RS Obed, ASC	(IC-70956N) Waikhom Hemanta Singh, AOC
(IC-70917P) Sanjay Bisht, Inf	(IC-70957W) Ravindra Negi, EME
(IC-70918X) Angad Kumar, Arty	(IC-70958Y) Kunal Pal, Sigs
(IC-70919A) Ishitab Vashisht, AC	(IC-70959F) Mukesh Negi, Mech Inf
(IC-70920P) Neeraj Beniwal, Inf	(IC-70960W) Bijender Singh, ASC
(IC-70921X) Sandeep Kumar Nehra, Inf	(IC-70961Y) Arora Abhijit Singh Mahender Singh, Inf
(IC-70922A) Neelabh Bharadwaj, Inf	(IC-70962F) Charanjit Singh, Inf
(IC-70923H) Sourabh Sirohi, Inf	(IC-70963K) K L Raghvendra, Arty
(IC-70924L) Vivek Kumar, Arty	(IC-70964M) Siddharth Saurav, Arty
(IC-70925N) Rahul Chandran, Arty	(IC-70965P) Jyotish Kumar Mangalam, Inf
(IC-70926W) Vishwanath, Arty	(IC-70966X) Udai Singh Parmar, Inf
(IC-70927Y) Sujeet Kumar, Arty	(IC-70967A) Tapadia Akash Ashok, Inf
(IC-70928F) Ashutosh Sharma, Arty	(IC-70968H) Pushpendra Singh Rajput, Mech Inf
(IC-70929K) Naresh Kumar Mahla, Arty	(IC-70969L) Anil Kumar, Arty
(IC-70930Y) Vikram Gaur, Inf	(IC-70970A) Gaurav Sharma, Arty
(IC-70931F) Rohit Rattan, Inf	(IC-70971H) Deshmukh Vikrant Ajit, Inf
(IC-70932K) S S Babu, AC	(IC-70972L) Chandan Kumar, Arty
(IC-70933M) Raman Kumar, Inf	(IC-70973N) Amritesh Vikram, Engrs
(IC-70934P) Rohan Thampi, Inf	(IC-70974W) Harsh Wardhan, AAD
(IC-70935X) Rajeev Demra, Inf	(IC-70975Y) Prashant Sawant, Engrs
(IC-70936A) Roopak Kumar Thakur, Inf	(IC-70976F) Kumar Gaurav, Inf
(IC-70937H) Shreedhar Hiremath, Inf	(IC-70977K) Pulkit Dewan, EME
(IC-70938L) Sumit Sardana, Arty	(IC-70978M) Arun D S, Arty
(IC-70939N) Jani A C, Arty	(IC-70979P) Harsha G R, AC
(IC-70940H) Ravinder Singh Bisht, Inf	(IC-70980K) Kumar Gaurav, Arty
(IC-70941L) Vishal Dwivedi, Inf	(IC-70981M) Vijay Thapa, Inf

(IC-70982P) Manmath Khandual, Arty	(IC-71021A) Shinde Dhanraj Dilip, Arty
(IC-70983X) Rahul Rana, Inf	(IC-71022H) Gothe Saurabh Anil, Inf
(IC-70984A) Rohit Kumar Barik, AC	(IC-71023L) S Praveen Kumar, AC
(IC-70985H) Dharmendra Singh, AOC	(IC-71024N) Vikram Shekhawat, Inf
(IC-70986L) Biranchi Narayan Tripathy, AAD	(IC-71025W) Nikhil Rathore, Inf
(IC-70987N) Mohit Kumar Jain, Arty	(IC-71026Y) Nagesh Prashar, Engrs
(IC-70988W) Virendra Singh, Inf	(IC-71027F) Piyush Kaushal, AAD
(IC-70989Y) Raj Kumar, Inf	(IC-71028K) Heemanshu Yadav, Inf
(IC-70990N) Linson Lawrence, Inf	(IC-71029M) Himanshu Ale, Inf
(IC-70991W) Tushar Sharma, Arty	(IC-71030F) Divesh Poswal, Inf
(IC-70992Y) Gooty Balaji Niranjana, Arty	(IC-71031K) Anil Kumar Loohach, ASC
(IC-70993F) S Shyam Saseethar, Engrs	(IC-71032M) Ullas Kumar V, Inf
(IC-70994K) Priyank Srivastava, Inf	(IC-71033P) Rajbir, Inf
(IC-70995M) Raipure Vishal Bhagwan, Mech Inf	(IC-71034X) Atul Dinesh Midha, Mech Inf
(IC-70996P) Deepak Nandal, Inf	(IC-71035A) Shwetej, Inf
(IC-70997X) Saurabh Singh, Inf	(IC-71036H) Abhineet, Inf
(IC-70998A) Amarbir Singh Bhinder, Inf	(IC-71037L) Lokendra Singh Shekhawat, Inf
(IC-70999H) Raman Bhardwaj, Arty	(IC-71038N) Santosh Negi, Inf
(IC-71000K) Rupak Kumar, Arty	(IC-71039W) Sunil Sangwan, Inf
(IC-71001M) Shwetank Saran, AC	(IC-71040L) Varun Kumar Gundavarapu, EME
(IC-71002P) Sudipto Saha, Engrs	(IC-71041N) Pavneet Narula, AAD
(IC-71003X) Alphy Yeldho K, AAD	(IC-71042W) Deepak Singh Bist, Inf
(IC-71004A) Ramandeep Singh Negi, Inf	(IC-71043Y) Prashant Sanwal, Inf
(IC-71005H) T R Swamydass, Arty	(IC-71044F) Animesh Rawat, Inf
(IC-71006L) Gaurav Negi, Inf	(IC-71045K) Lokesh Chouhan, Arty
(IC-71007N) Rahul, Arty	(IC-71046M) Ravinder Singh Manhas, Inf
(IC-71008W) Dilip Singh Shekhawat, Arty	(IC-71047P) Shishank Sharma, AC
(IC-71009Y) Mayuresh Ramesh Barbhui, Inf	(IC-71048X) Dhruv Rajan, Inf
(IC-71010N) Japender Pal Singh, Inf	(IC-71049A) Akash Pandey, Inf
(IC-71011W) Varun Kumar Chaudhary, Arty	(IC-71050P) Rahul Kumar Rai, Inf
(IC-71012Y) Ranbir Singh, Arty	(IC-71051X) Amit Saxena, AAD
(IC-71013F) R Naveen Kumar, Inf	(IC-71052A) Shashi Kishor, Arty
(IC-71014K) Ashwani Kumar, EME	(IC-71053H) Sonam Kumar Jaiswal, EME
(IC-71015M) Deepak Singh Manhas, AAD	(IC-71054L) Anurag Upadhyay, Arty
(IC-71016P) Manish Kumar Pandey, Arty	(IC-71055N) Prabir Gogoi, Inf
(IC-71017X) Anuj Kumar, AC	(IC-71056W) Rajiblochan Pradhan, Arty
(IC-71018A) Avinash Kumar, Inf	(IC-71057Y) Kuldeep Sharma, Inf
(IC-71019H) Anupam Sharma, ASC	(IC-71058F) Saksham Sharma, Inf
(IC-71020X) Rana Ravinder Singh, Engrs	(IC-71059K) Vikash Kumar, Arty

(IC-71060Y) Arundeeep Singh, Engrs
 (IC-71061F) Vijay Kumar Sharma, Arty
 (IC-71062K) Gaurav Bisht, Arty
 (IC-71063M) Vishnu Datta Trivedi, Inf
 (IC-71064P) Shailendra Singh Mehta, Engrs
 (IC-71065X) Jitender Singh, Engrs
 (IC-71066A) Harshwardhan Dadhich, Inf
 (IC-71067H) Ravi Kumar, Inf
 (IC-71068L) Tanuj Nautiyal, Inf
 (IC-71069N) Rohit Porwal, Arty
 (IC-71070H) Libu Abraham, Arty
 (IC-71071L) Ashish Mishra, Arty
 (IC-71072N) Kamal Thawani, AC
 (IC-71073W) Sanap Kailas Pandharinath, Inf
 (IC-71074Y) Rajesh Joshi, AAD
 (IC-71075F) Sahil Khurana, Arty
 (IC-71076K) Vikas Katoch, Inf
 (IC-71077M) Alok Kumar Pandey, Mech Inf
 (IC-71078P) Leetul Gogai, ASC
 (IC-71079X) Bhupinder Singh Ujjwal, AC
 (IC-71080M) Ankith Negi, Inf
 (IC-71081P) Vipin Kumar Gaur, Inf
 (IC-71082X) Praveen Kumar Parekh, Arty
 (IC-71083A) Surendra Singh, Inf
 (IC-71084H) Ashwin Shah, Inf
 (IC-71085L) Anogh Kumar Chanda, Inf
 (IC-71086N) Jagdish Somappa Rachannavar, Engrs
 (IC-71087W) Vankul Sharma, Inf
 (IC-71088Y) S Gautham, Arty
 (IC-71089F) Vikram Singh Kadian, EME
 (IC-71090W) Shivesh Singh Thapa, Inf
 (IC-71091Y) Siddharth Singh, AC
 (IC-71092F) Atul Yadav, Inf
 (IC-71093K) Kshitij Shukla, AAD
 (IC-71094M) Amit Kumar, Inf
 (IC-71095P) Vijendra Singh Shekhawat, Arty
 (IC-71096X) Daljeet Singh Dillo, Inf
 (IC-71097A) Nishant Kumar, Inf
 (IC-71098H) Umesh Chandra Joshi, Arty

(IC-71099L) Harish Sharma, Arty
 (IC-71100P) Harish Kumar Vijendran, Inf
 (IC-71101X) Ashish Ranjan Dubey, Inf
 (IC-71102A) Srikanth L, Engrs
 (IC-71103H) Gadgil Sachin Shrikant, Arty
 (IC-71104L) VM Vikram Veeraraghavan, Arty
 (IC-71105N) Upkar Tiwari, Arty
 (IC-71106W) Tarun Kumar, Mech Inf
 (IC-71107Y) Raghav Khanduri, Inf
 (IC-71108F) Yadvinder Singh Bhau, AC
 (IC-71109K) Saptarshi Sarkar, AAD
 (IC-71110Y) Sooraj R, Arty

The undermentioned 05 (Five) Gentleman Cadet of 105 Technical Graduates Course and 16 University Entry Scheme Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) or 'U' (denoting UES) are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 07 Jun 2008 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC) and AI 2/93, as amended (UES). They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 11 Jun 2006 under SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course;—

T/6532 Tarshem (IC-70671F) AAD with the seniority below U/797 Chaitanya Sangwan (IC-70670Y) EME, U/808 Gurjant Singh (IC-70686K) Sigs with the seniority below U/738 Tapan Nauriyal (IC-70685F) Engrs, T/6499 Goregaonkar Abhishek Prafulla (IC-70705K) Sigs with the seniority below T/6520 Phaltane Anand Nand Kumar (IC-70704F) INT, T/6541 Sainath Kittur (IC-70709A) Engrs with the seniority below U/810 Vishal Rana (IC-70708X) EME and U/835 Bhupendra Kumar (IC-70729N) Engrs with the seniority below U/762 Sarthak Mehta (IC-70728L) EME whose names have been published in the Gazette of India dated 21 Feb 2009.

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt

The undermentioned officers of SSC (NT)-85 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 22 Mar 2008. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of five years wef 22 Mar 2008 under the provisions of SAI 3/S/98 as amended:—

Mukherjee Somyanarayan Mritunjay (SS-42904F), Engrs with seniority next below the Lt Tanuj Deepak Rao Mandlik (SS-42903Y), Inf and Razak Jakhar (SS-42910P), Inf with seniority next below the Lt Preetam Singh Kunwar (SS-42909A), Inf whose names appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence notification published on 08 Nov 2008.

SHORT SERVICE COMMISSION

(On Probation)

The undermentioned 04 (Four) GCs of 105 Technical Graduates Course and 16 University Entry Scheme Course is granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their names under the provisions of SAI 1/S/94, as amended for the GCs of TG Course and under the provisions of AI 2/93, as amended for the GCs of UES Course :—

IMA No.	Name	SS No.	Arm/ Service	Date of SSC on Probation
105 Technical Graduates Course :				
T/6532	Tarshem	43055X	Sigs	16 Jul 2007
T/6541	Sainath Kittur	43064Y	EME	02 Aug 2007
16 University Entry Scheme Course :				
U/808	Gurjant Singh	43140A	Sigs	02 Aug 2006
U/835	Bhupendra Kumar	43167X	EME	16 Jul 2007

The undermentioned 01 (One) GC of 104 Technical Graduates Course is granted Short Service Commission (on probation) for the period of his training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against his name under the provisions of SAI 1/S/94, as amended :—

IMA No.	Name	SS No.	Arm/ Service	Date of SSC on Probation
104 Technical Graduates Course :				
T/6499	Goregaonkar Abhishek Prafulla	42862A	EME	01 Feb 2007

NILESH CHOWDHARY
Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 566, the 19th Aug 2009.—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Sub Maj Ajaib Singh (JC-218161P), Formerly Para Regt, 14 Jul 2008

Sub Maj Ajit Singh (JC-211012Y), Formerly RAJ Rif, 01 Oct 2008

Sub Maj Karan Singh (JC-257281K), Formerly Arty, 22 Dec 2008

In the rank of Subedar (GD)

Subedar Mohan Chander Karnatak (JC-590110W), Formerly Kumaon Regt, 07 Sep 2008

Subedar Gurnam Singh (JC-328357L), Formerly Bengal Engr GP, 07 Sep 2008

In the rank of Naib Subedar (GD)

Nb Sub Ganesh Singh (JC-538213A), Formerly Kumaon Regt, 14 Jul 2008

Nb Sub Dinan K (JC-263043N), Formerly Arty, 22 Dec 2008

Nb Sub Bir Bahadur Sahi (JC-623415Y), Formerly 8 GR, 22 Dec 2008

Nb Sub L Thangkholun Kukid (JC-548782F), Formerly Assam Regt, 22 Dec 2008

PRADEEP KUMAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 567, the 20th Aug 2009.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS—NON-TECH)

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

YS Guleria (NTR-16369P), 01 Jan 2009

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

No. 568, the 21st Aug 2009.—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name :—

PERMANENT COMMISSION

Col to Brig

Rank & Name, Pers Number & Date of Promotion

Brig Vipin Yadav (NR-15619Y), 01 Apr 2009

Brig Jaya Agnihotri (NR-15862W), 01 Apr 2009

Lt Col (Select) to Col

Rank & Name, Pers Number & Date of Promotion

Col Achamma VP (NR-16331L), 01 May 2008

Col Jane Pingfu (NR-16257P), 25 Jan 2008

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Rank & Name, Pers Number and Date of Promotion

Lt Col Achamma VP (NR-16331L), 25 Aug 2003

T PADMINI
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 569, dated 24th August 2009.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Cdr/Surg Capt (TS) to be Surg Cap
(Selection & equivalent)

S Goyal (MR-05302W) (75364), 23 Jan 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2008.

YASH PANDE
Brig
Offg Addl DGAFMS (HR)

No. 570, dated 25th August 2009.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No., Name and Arms/Services

(IC-37859) Prashant Ranjan Sharma, Engrs, 16 Dec 2004

JASWANT SINGH
Jt Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 571, dated 26th August 2009.—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt Navdeep Singh (TA-42481), Inf, 02 Oct 2008
Capt Hemant Gambhir (TA-42505), Inf, 27 Mar 2009
Capt Sanjay Nehra (TA-42508), Inf, 27 Mar 2009
Capt VK Seth (TA-42509), Inf, 27 Mar 2009
Capt Deepak Kumar (TA-42510), Inf, 27 Mar 2009
Capt Arvind Dagar (TA-42512), Inf, 27 Mar 2009
Capt Harminder Singh (TA-42513), Inf, 29 Mar 2009
Capt PK Verma (TA-42516), Inf, 27 Mar 2009

JAI RAJ
Under Secy

No. 572, dated 27th August 2009.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC No., Name and Arm

(IC-62393) Dhananjay Harsh Dravid, AC, 08 Jun 2008

PERMANENT COMMISSION (SC)

Lt to be Capt

SC No., Name and Arm

(SC-00522) Satyapal, AOC
(SC-00523) Amar Singh, AC
(SC-00524) Santosh Kumar, ASC
(SC-00525) Dikkala Gopinadham, Arty
(SC-00526) Sanjeev Mishra, Arty
(SC-00527) Chhitar Ram, Mech Inf
(SC-00528) Ramachandran M K, Arty
(SC-00529) Mukti Parshad Sharma, Arty
(SC-00530) R Kannan, AC
(SC-00531) Vikas Kumar, Arty
(SC-00532) Gurusiddayya Rabakavimath, AOC
(SC-00533) Kulwinder Singh, Arty

—09 Jun 2009

JASWANT SINGH
Jt Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 573, dated 28th August 2009.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Resal Chand (JC-840357A), 01 Apr 2009
Sub Bhanwar Lal (JC-448178F), 01 Apr 2009
Sub Valsalan T (JC-208039L), 01 Jun 2009
Sub Mathai TS (JC-840440X), 01 Jun 2009

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Sri Krishna Prasad (JC-841249H), 01 Apr 2009
Nb Sub Bhajan Singh (JC-841254N), 01 Apr 2009
Nb Sub Attar Singh (JC-402463F), 01 Apr 2009

Nb Sub Nardev Singh (JC-579195X), 01 May 2009

Nb Sub Govindan Srirangam (JC-159770Y), 01 Jun 2009

Nb Sub Ranbir Singh Malik (JC-402678A), 01 Jul 2009

Nb Sub Vijay Pal Singh Jayara (JC-528622A), 01 Jul 2009

Nb Sub Satish Kumar Chandel (JC-579018X), 01 Jul 2009

Nb Sub Shyam Lal Mahto (JC-178071H), 01 Jul 2009

Nb Sub Prasad VN (JC-841276M), 01 Jul 2009

Nb Sub Sher Bahadur Thapa (JC-841285N), 01 Jul 2009

To be Substantive Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Man Singh (JC-840855M), 01 Jul 2009

To be Substantive Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Suril Prasad Shahi (JC-841771L), 01 Jun 2009

Nb Sub (Clk) Rajinder Singh Manhas (JC-841772N), 01 Jun 2009

Nb Sub (Clk) Bachittar Singh (JC-841796X), 01 Jun 2009

Nb Sub (Clk) Sridhar Mohanty (JC-841819N), 01 Jul 2009

Nb Sub (Clk) Jagada Nanda Mohanty (JC-841868W), 01 Jul 2009

To be Naib Subedar (GD)

Hav Pardeep Singh (No. 10314163P now JC-842528A), 01 May 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Nakuleshwar Pandey (No. 10404249P now JC-842297P), 01 Jun 2009**

Hav Nathu Ram Nawlu (No. 10435652H now JC-842536Y), 01 Jun 2009**

Hav Sharwan Kumar Singh (No. 2973264M now JC-842540F), 01 Jun 2009**

Hav Bharat Kumar Thapa (No. 5242783K now JC-842541K), 01 Jun 2009**

Hav Umesh Chandra (No. 4055752H now JC-842542M), 01 Jun 2009**

Hav Rajinder Singh (No. 10134994L now JC-842544X), 01 Jun 2009**

Hav K Aravindakshan (No. 10165557M now JC-842546H), 01 Jun 2009**

Hav Jagat Singh (No. 9214679Y now JC-842549W), 01 Jun 2009**

Hav Barsati Singh Yadav (No. 4164957N now JC-842551N), 01 Jun 2009**

Hav Baj Ram (No. 9081610X now JC-842556M), 01 Jun 2009**

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Narender Singh (No. 10404759W now JC-842559A), 01 Jun 2009**

Hav Balwinder Singh (No. 3369663X now JC-842560P), 04 Jun 2009**

Hav Hari Kant Sharma (No. 7766699X now JC-842561X), 01 Jun 2009**

Hav Brijpal Singh (No. 13808518K now JC-842563H), 01 Jun 2009**

Hav Siwa Tamang (No. 10372943L now JC-842564L), 01 Jun 2009**

Hav Gaje Singh (No. 4054769K now JC-842566W), 01 Jun 2009**

Hav Prem Singh (No. 10404275W now JC-842567Y), 01 Jun 2009**

Hav Bimal Chandra Das (No. 10243999A now JC-842575X), 01 Jun 2009**

Hav Kapur Singh (No. 10361165L now JC-842576A), 11 Jun 2009**

Hav Hardy Singh (No. 10135037M now JC-842580H), 01 Jun 2009**

Hav Mangla Prasad Singh (No. 2973110A now JC-842585F), 04 Jun 2009**

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (Clk)

Hav Clk Ram Singh (No. 13968313N now JC-842532H), 01 Jun 2009**

Hav Clk Udai Singh Lama (No. 5843208M now JC-842533L), 08 Jun 2009**

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

PRADEEP KUMAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 574, dated 31st August 2009.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

SPECIAL LIST

JAK Rif

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Rect (RT) Nishan Singh (No. 580821H now JC-580821H), 28 Mar 2009

ARMOURED CORPS

To be Substantive Risaldar

Nb Ris Mathai Y (JC-241438P), 02 May 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Bichitar Singh (JC-241727K), 26 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kaptan Singh (JC-241785N), 14 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Bhagirath Ram Khilery (JC-241786), 09 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mesho Kumar (JC-241914H), 14 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kuldeep Singh (JC-241717A), 12 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris O Prijodhoja Singha (JC-242028L), 30 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kuldeep Singh (JC-240819K), 07 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Gurdeep Kumar (JC-241149A), 25 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Shinde Hanamant Vithoba (JC-241355K), 08 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mahendra Pal Singh (JC-240901Y), 23 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Gummadi Srinivas (JC-241239F), 07 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sarwan Kumar (JC-241884W), 23 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Suram Chand (JC-242006M), 17 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rekh Pal Yadav (JC-240110F), 12 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Satyendra Pal Singh (JC-241810F), 11 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Raj Pal Singh (JC-240708M), 18 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Y Jadumani Singh (JC-241347L), 12 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Nanda Kumar KM (JC-241522P), 12 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rakesh Kumar (JC-241842K), 12 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Shiv Prem Chand (JC-241869F), 12 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ram Pravesh (JC-241122H), 09 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mir Jahangir Ali (JC-241589N), 09 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Tej Bhan Sharma (JC-241262P), 14 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Bharat Singh (JC-241018P), 07 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris T Krishnan (JC-241145K), 29 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sultan Singh (JC-240755K), 25 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Shendage Tanaji Ananta (JC-241388P), 14 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Katuri Siva Sankar Babu (JC-241489H), 14 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Priya Rajan CP (JC-241490X), 14 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kolekar Tukaram Aka Ram (JC-241166A), 24 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Wade Ram Chandra Gayanu (JC-241431L), 30 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ranjeet Singh (JC-242032N), 19 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Haran Chandra Saha (JC-240685W), 29 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Hari Raj Singh (JC-241270N), 01 Aug 2008

Nb Ris Sam Sher Bahadur Thapa (JC-240925H), 01 Aug 2008

Nb Ris Mara Bhathini Srinivas Rao (JC-241064K), 01 Aug 2008

Nb Ris Mithlesh Kumar Tiwari (JC-241905F), 01 Aug 2008

Nb Ris Anupam Lal (JC-241908P), 01 Aug 2008

Nb Ris Ingle Prakash Sakharam (JC-241958A), 01 Aug 2008

To be Naib Subedar

Dfr/Clk Ved Prakash Singh (No 1087519A now JC-243448X), 04 Feb 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 19 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr/SKT S Krishna Moorthy (No 1084843M now JC-243479X), 01 Feb 2009

Dfr/Clk Kishan Singh (No 1088834H now JC-243481P), 02 Mar 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Shankar Lal (No 1088766A now JC-243480M), 01 Mar 2009

Dfr/Clk Munna Rai (No 1088859P now JC-243482X), 01 Apr 2009

Dfr/Clk Parmeshwar Agasha (No 1088869Y now JC-243483A), 01 Apr 2009

Dfr/Clk Nagendra Kumar Verma (No 1088882H now JC-243484H), 01 Apr 2009

Dfr/Clk Pradeep Kumar Muni (No 1087017X now JC-243553N), 01 May 2009

Dfr/Clk Suresh Kumar (No 1088852L now JC-243554W), 01 May 2009

Dfr/Clk Pawar Balasaheb Appasaheb (No 1088565F now JC-243555Y), 01 Jun 2009

Dfr/Clk Solanki Savubhai Laxman Bhai (No 1088902L now JC-243556F), 01 Jun 2009

Dfr/Clk Basant Prasad Singh (No 1088967Y now JC-243557K), 01 Jun 2009

Dfr/Clk Sekh Naushad (No 1089038M now JC-245558M), 01 Jun 2009

Dfr/Clk Pushpendra Kumawat (No 1089078N now JC-243560K), 01 Jun 2009

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

ARMY BRANCH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

No. 575, the 1st Sept 2008.—The President is pleased to promote Shri Bidyot Panging, Executive Engineer to Superintending Engineer in the Corps of EME, under Ministry of Defence with effect from 23 Jul 2009 (Forenoon).

The President is pleased to promote Shri Naveen Nagappa, SM, Assistant Executive Engineer to Executive Engineer in the Corps of EME, under Ministry of Defence with effect from 10 Nov 2008 (Forenoon).

N K KASHMIRA
Under Secy

AIR BRANCH

No. 576, the 2nd Nov 2008.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

To be Substantive Wg Cdr (Flying Branch)

Rank, Name, Number BR & Date

Wg Cdr SR Gharpure, 17192 (FN), 01 Oct 2003/14 May 2001 (NS).

(His name will appear above WG Cdr as Kolhe (17437) F(P) in the combined gradation list).

Wg Cdr S Badyal, 17478 (FN), 01 Oct 2003/14 May 2001 (NS).

Wg Cdr R Venkataraman, 17480 (FN), 01 Oct 2003/14 May 2001 (NS).

(Their names will appear above WG Cdr AP SINGH (17695) F(P) in the combined gradation list).

MANJIT SINGH
Dy Dir PO-2(B)

No. 577, the 3rd Sept 2008.—The President is pleased to retire Shri JB Khokra, Under Secretary, (CSL No. 6092 & DoB : 15-08-1949) Ministry of Defence from Government Service with effect from 31-08-2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

K MURALI
Under Secy

AIR BRANCH

No. 578, dated 04 Sep 2008.—The President is pleased to change the branch of the undermentioned officer from Administrative branch to Flying (Navigator) Branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Flying (Navigator) Branch. The officer will be placed between Wg Cdr K Parthiban (17373) F(P) and Wg Cdr AS Kohle (17437) F(P) in the Air Force list. The officer will be entitled to Flying Pay with effect from the date of change of branch i.e. 01 Oct 2003 vide Air HQ/21641/17192/PO-1(A)(T) dated 04 Feb 2004.

Wg Cdr SR Gharpure (17192) to F(N) branch wef 01 Oct 2003.

The President is pleased to change the branch of the undermentioned officer from Administrative branch to Flying (Navigator) Branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Flying (Navigator) Branch. The officer will be placed between Wg Cdr AK Parida (17476) F(P) and Wg Cdr AP Singh (17695) F(P) in the Air Force list. The officer will be entitled to Flying Pay with effect from the date of change of branch i.e. 01 Oct 2003 vide Air HQ/21641/17478/PO-1(A)(T) dated 04 Feb 2004.

Wg Cdr S Badyal (17478) to F(N) branch wef 01 Oct 2003.

The President is pleased to change the branch of the undermentioned officer from Administrative branch to Flying (Navigator) Branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Flying (Navigator) Branch. The officer will be placed between Wg Cdr S Badyal (17478) F(N) and Wg Cdr AP Singh (17695) F(P) in the Air Force list. The officer will be entitled to Flying Pay with effect from the date of change of branch i.e. 01 Oct 2003 vide Air HQ/21641/17480/PO-1(A)(T) dated 04 Feb 2004.

Wg Cdr R Venkatraman (17480) to F(N) branch wef 01 Oct 2003.

S SRINIVASAN
Wg Cdr
JDPO-1(T)

ARMY BRANCH

CORRIGENDA

No. 579, the 07th Sep 2008—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 25 Jun 2005 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to be Maj" the following amendment is made :—

Against	: IC-54869 Apar Krishnatray, ASC
For	: 16 Dec 2004
Read	: 21 Apr 2004
Against	: IC-55335 Yogender Pal Singh, Engrs
For	: 16 Dec 2004
Read	: 11 May 2004

Lt to be Capt

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 28 Mar 2009 under the heading "Regular Army, Permanent Commission" and sub heading "Lt to be Capt" the following amendment is made :—

For	: IC-68842 Amarinder Singh Mehar, Arty
Read	: Blank

JASWANT SINGH
Jt. Director
MS-8C

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 580, dated 08 Sep 2008.—In Ministry of Defence Notification No. 41 dated 13 Oct 2007 published in Gazette of India No. 503 dated 18 Sep 2007 under the heading "Regular Army" sub heading "Special List" 'Armoured Corps' to be Risaldar RT' Page No. 1588.

To be Substantive Risaldar

(a) For : Nb Ris/Granthi Harpal Singh (JC-237069L), 30 Dec 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

(b) Read: Nb Ris/Granthi Harpal Singh (JC-237069L), 30 Dec 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009